

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 जून 2024—ज्येष्ठ 28, शक 1946

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 जून 2024

भोपाल, दिनांक 18 जून, 2024 (ज्येष्ठ 28, 1946)

क्र. 8615—मप्रविस—16—विधान—2024.— मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के लिये निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156—बुधनी से निर्वाचित सदस्य श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दिया गया है, जिसे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 जून 2024 से स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.